

तुरंत रिलीज के लिए

**अधिक जुड़ा हुआ, स्थिर ब्रैम्पटन बनाने के लिए साझेदारी की जा रही है**  
**सिटी ने पब्लिक ट्रांज़िट इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में फेडरल सरकार से \$45.3 मिलियन का और**  
**प्रांतीय सरकार से \$37.8 मिलियन का निवेश सुरक्षित किया**

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (28 जुलाई, 2020) – आज, मेयर पैट्रिक ब्राउन और सिटी काउंसिल (City Council) ने, कैंनेडा सरकार (Government of Canada) और ओनटैरियो सरकार (Government of Ontario) द्वारा बड़े निवेश का स्वागत किया, जो ब्रैम्पटन में, पब्लिक ट्रांज़िट इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे सहयोग करेगा।

माननीय मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज, कैथरीन मकैना (Catherine McKenna) ने, पब्लिक ट्रांज़िट इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रीम (पी.टी.आई.एस.) (Public Transit Infrastructure Stream) (PTIS) द्वारा, चार प्रोजेक्ट्स में कैंनेडा सरकार के \$45.3 मिलियन के निवेश की घोषणा की।

मिनिस्टर मकैना की घोषणा के बाद, एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड रेड टेप रिडक्शन और ब्रैम्पटन साउथ के लिए प्रोविंशियल पार्लियामेंट के मेम्बर, माननीय प्रबमीत सिंह सरकारिया (Prabmeet Singh Sarkaria) ने, ओनटैरियो के मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, माननीय लौरी स्कॉट (Laurie Scott) की ओर से, घोषणा की कि ओनटैरियो सरकार, पब्लिक ट्रांज़िट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में \$37.8 मिलियन से अधिक का योगदान दे रही है।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, \$30.2 मिलियन का योगदान दे रही है; यह सब इन्वेस्टिंग इन कैंनेडा इंफ्रास्ट्रक्चर (Investing in Canada infrastructure) योजना द्वारा, संयुक्त रूप से हो रहा है।

चार प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं:

- **2020-2021 रिप्लेसमेंट बसें:** मौजूदा सेवा स्तरों को कायम रखने और पुराने फ्लीट को बदलने के लिए, 32 पारंपरिक बसों की खरीद।
  - फेडरल फंडिंग: \$9,132,000
  - प्रांतीय फंडिंग: \$7,609,239
  - म्युनिसिपल फंडिंग: \$6,088,761
- **2020-2024 बस नवीनीकरण:** 300 पारंपरिक बसों का नवीनीकरण, जिसमें शामिल है, बड़े पुर्जों की मरम्मत और बदली (रिप्लेसमेंट), जैसे इंजन, सस्पेंशन और ब्रेक्स।
  - फेडरल फंडिंग: \$22,243,218
  - प्रांतीय फंडिंग: \$18,534,161
  - म्युनिसिपल फंडिंग: \$14,830,666

- **ऑन-बोर्ड कैमरों और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स की बदली:** संपूर्ण बस फ्लीट में अधिक नई तकनीकों को शामिल करना।
  - फेडरल फंडिंग: \$2,000,000
  - प्रांतीय फंडिंग: \$1,666,500
  - म्युनिसिपल फंडिंग: \$1,333,500
- **डाउनटाउन ट्रांज़िट मोबिलिटी हब:** एक नया ट्रांज़िट हब (केंद्र), जो इलेक्ट्रिक बसें खड़ी करने के लिए हब को अपग्रेड करने की जरूरतों सहित, अधिक सेवा, नई बस कैनोपीज (शामियाने), प्रतीक्षा स्थल, रियायतों की इजाज़त देते हुए, बस बेज (सवारियों को लेने और उतारने के लिए सड़क के किनारे वाले स्थान) की संख्या में वृद्धि करेगा।
  - फेडरल फंडिंग: \$12,000,000
  - प्रांतीय फंडिंग: \$9,999,000
  - म्युनिसिपल फंडिंग: \$8,001,000

## हवाले

“आज घोषित किया गया निवेश, सभी के लिए अधिक सुरक्षित और स्वस्थ ट्रांस्पोर्टेशन प्रदान करते हुए, हमारे तेज़ी से बढ़ रहे ट्रांज़िट सिस्टम की क्षमता और गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगा। हमारे फेडरल और प्रांतीय साझेदारों की मदद से, हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सहयोग करके और इसमें वृद्धि करके, हमारे समुदायों में निवेश करने के योग्य हैं। भरोसेमंद ट्रांज़िट, सेवाओं और नौकरियों तक सुलभता बढ़ाने में मदद करता है, ग्रीनहाउस गैस निकालियों को घटाता है और हमारे समुदाय के संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार करता है। मैं यहां ब्रैम्पटन में, हमारे समुदाय को सहयोग करने के लिए हमारी साझेदारियों के जारी रहने पर उत्साहित हूँ।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“आज की घोषणा, हमारे शहर के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध हुई है। ये चार प्रोजेक्ट्स, हमारे समुदाय के लिए और उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो ट्रांज़िट पर निर्भर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, समुदायों को प्रदान की जाने वाली जीवन गुणवत्ता में सुधार करता है।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“आज का यह निवेश, सीधे हमारे समुदाय और इसकी भविष्योन्मुखी वृद्धि में जाएगा, यह बहुत-से निवासियों की ज़िंदगियों को प्रभावित करेगा। अधिक स्वस्थ और अधिक स्थिर समुदाय को सहयोग करते हुए, जब हम अपने समुदायों में निवेश करते हैं, तो हर किसी की जीत होती है।”

- शार्मेन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; वाइस-चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन, केनेडा में सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ रहे ट्रांज़िट सिस्टम्स में से एक के लिए घर है। हमारे फेडरल और प्रांतीय साझेदारों के सहयोग से, हम आने वाले कई वर्षों के लिए, हमारे निवासियों को ट्रांस्पोर्टेशन का सुलभ और स्थिर रूप प्रदान करने के योग्य हैं।”

इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति और इसका विकास, हमारे समुदाय के भविष्य में महत्वपूर्ण निवेश है। हम अपने शहर की जरूरतों पर ध्यान देने के लिए इन साझेदारियों को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)